



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 367]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 1981/कार्तिक 22, 1903

No. 367]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 1981/KARTIKA 22, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1981

सां० कां० वि० 589(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
की अधिसूचना सं० 302/79-सां० 4 विसम्बर, 1979 का निम्नलिखित
धीरे संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाखण्ड सारणी में क्रम सं० 1 और 2 और
उनसे संबंधित प्रविष्टियों का छीप किया जाएगा।

[सं० 188/81-कां० सं० 332/10/80-टी० प्रार० यू०]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 13th November, 1981

G.S.R. 589 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-
rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central
Government hereby makes the following further amendment
in the notification of the Government of India in the Ministry

of Finance (Department of Revenue) No. 302/79-Central Excises
dated the 4th December, 1979, namely:—

In the Table annexed to the said notification Serial Nos. 1
and 2 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. 1 88/81 (F. No. 332/10/80-TRU)]

सां० कां० वि० 590(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्तमंत्रालय (राजस्व विभाग) की
अधिसूचना सं० 5/80 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 फरवरी, 1980 का
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी
जाएगी।

“सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क की दर
1	2	3
1.	पोलिमिनाइल स्त्रीराइड	पैसीस प्रतिशत मूल्यानुसार।
2.	पोलिप्रोपिलिन	सत्ताइस प्रतिशत मूल्यानुसार
3.	अन्य	बाजीस प्रतिशत मूल्यानुसार”

[सं० 188/81/कां० सं० 332/10/80-टी० प्रार० यू०]

G.S.R. 590 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 5/80-Central Excises, dated the 27th February, 1980, namely:—

In the said notification, for the Table, the following Table shall be substituted.

“THE TABLE

S. No.	Description	Rate of duty
1	2	3
1.	Polyvinylchloride	Thirty-five per cent. ad valorem.
2.	Polypropylene	Twenty-seven per cent. ad valorem.
3.	Others	Forty per cent. ad valorem.”

[No. 189/81 (F. No. 332/10/80-TRU)]

सं० का० नि० 591(प्र) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद संख्यांक 15क की उप मद (1) के अन्तर्गत आने वाली और किसी ऐसे औद्योगिक संस्थान में, जिसकी उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के उपबंधों के अधीन ऐसी अल्प धनत्व के पालिथिलीन के विनिर्माण के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति क्षमता एक लाख टन से कम है, विनिर्मित अल्पधनत्व पालिथिलीन को उस पर उद्ग्रहणीय उत्तरे उत्पाद-शुल्क से जो मूल्यानुसार तीस प्रतिशत से अधिक है, छूट देती है।

[सं० 190/81/का० सं० 332/10/80-टी० प्रार० यू०]

G.S.R. 591 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts low density polyethylene, falling under sub-item (1) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and manufactured in any industrial undertaking whose annual licensed capacity under the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for manufacturing such low density polyethylene is less than one lakh tonnes, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of thirty per cent. ad valorem.

[No. 190/81 (F. No. 332/10-80-TRU)]

सं० का० नि० 592(प्र) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 205 सीमाशुल्क, तारीख 16 मई, 1980 को विरहित करती है।

[का० सं० 332/10/80-टी० प्रार० यू०/सं० 245-सीमाशुल्क]

G.S.R. 592(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of

1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 205-Customs, dated the 16th October, 1980.

[F. No. 332/10/80-TRU/No. 245-Customs]

सं० का० नि० 593(प्र) :—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का 16) की धारा 47 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 130 सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1981 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं० 68 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[का० सं० 332/10/80 टी० प्रार० यू०/सं० 246-सीमाशुल्क]

G.S.R. 593(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 47 of the Finance Act, 1981 (16 of 1981), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 130-Customs, dated the 12th May, 1981, namely:—

In the Schedule to the said notification, Serial No. 68 and the entry relating thereto shall be omitted.

[F. No. 332/10/80-TRU/No. 246-Customs]

सं० का० नि० 594(प्र) :—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1981 (1981 का 16) की धारा 47 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 137-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाखण्ड सारणी में क्रम सं० 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[का० सं० 332/10/80-टी० प्रार० यू०/सं० 247-सीमाशुल्क]

G.S.R. 594 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 47 of the Finance Act, 1981 (16 of 1981), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 137-Customs, dated the 12th May, 1981, namely:—

In the Table annexed to the said notification, Serial No. 1 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 332/10/80-TRU/No. 247-Customers]

सां. कां. निं. 595(प्र) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंककारी विभाग की अधिसूचना सं. 227-सीमाशुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी के स्तंभ 3 में क्रम सं. 4 के सामने "मूल्यानुसार 90 प्रतिशत" श्रृंखों और शब्दों के स्थान पर "मूल्यानुसार 65 प्रतिशत" श्रृंख और शब्द रखे जाएंगे।

[फां. सं. 332/10/80-टी०आर०यू०/सं. 248-सीमा-शुल्क]

G.S.R. 595(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 227-Customs, dated the 2nd August, 1976, namely:—

In the Table annexed to the said notification, in column(3) against Serial No. 4, for the figures and words "90 per cent ad valorem", the figures and words "65 per cent ad valorem," shall be substituted.

[F. No. 332/10/80-TRU/No. 248-Customs]

सां. कां. निं. 596(प्र) :—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का 16) की धारा 47 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 124

सीमाशुल्क, तां. 12 मई, 1981 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

1	2	3
"7क	39	पोलिक्विनाइल क्लोराइड रेसिन"

[फां. सं. 332/10/80-टी०आर०यू०सं. 249-सीमा-शुल्क]

टी०आर० रुस्तगी, उप सचिव

G.S.R. 596(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 47 of the Finance Act, 1981 (16 of 1981), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 124-Customs, dated the 12th May, 1981, namely:—

In the Table annexed to the said notification, after Serial No. 7 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

1	2	3
"7A	39	Polyvinyl chloride resins"

[F.No. 332/10/80-TRU/No. 249-Customs]

T.R. RUSTAGI, Dy. Secy.

